

Request 120

13-11-06

From,

District Judge
Bulandshahr.

17184
14/11/06
16/11/06
15/11/06
17/11/06

To,

Sri K.C. Srivastava
Deputy Registrar
High Court of Judicature at
Allahabad.

Nov 07

No. / Dated: Bulandshahr: ~~October~~ , 2006

Sub:- Strict compliance of Court's Circular letter No.31/2005, dated 29.10.05 regarding prohibition of Dowry Act Rule, 1991 duly amended 2004.

Sir,

orig. in IV/3359

With reference to the Hon'ble Court's letter No.9073/Admn.(A-4) dated, Allahabad 13.7.06 on the above subject I have to inform that a report was called for from each & every Judicial Officers & supporting staff, the ministerial & inferior establishment of Bulandshahr Judgeship. All the Judicial Officers, ministerial inferior staff have submitted their own declaration to this effect that they have not taken any dowry in the marriage. The information is being attached herewith as desired by your honour.

S.O. Admn. n/n

D. R. (M)
13/11/06

With best regards.

Encl: 40(Forty) compliance reports.

Yours faithfully

(A.K. Jain)
District Judge,
Bulandshahr

26/10/06

140 (1278)

S.O. Admn n/n

122 (M)

9-11-06

प्रेषक : अन्जना,
द्वितीय सिविल जज {अवर छाउ},
बुलन्दशहर ।

सेवा में ,
माननीय जिला न्यायाधीश ,
बुलन्दशहर ।

सन्दर्भ : सं० 9013/एडीमन० {ए-4}/दिनांकित इलाहाबाद,
13.7.2006

विषय : देहज प्रतिषेध संशोधन नियमावली 2004 के तहत
सरकलर लेटर नं० 31/2005 दिनांकित 29.10.2005
के बावत अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,
उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में मुझे यह निवेदन करना है
कि मेरी एवं मेरे न्यायालय में कार्यरत सभी कर्मचारीगण की
नियुक्ति दिनांक 31.3.2004 से पूर्व की है। अतः उपरोक्त
विषयक सन्दर्भ में उ०प्र० देहज प्रतिषेध {प्रथम संशोधन} नियमावली
2004 के नियम 5 की अपेक्षानुसार किसी के भी द्वारा घोषणापत्र
दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः किसी के द्वारा भी
उक्त सन्दर्भ में घोषणापत्र नहीं दिया जाना है।

आह्वया श्रीमान जी की सेवा में सूचनार्थ सादर
प्रेषित है।

दिनांक- 29.7.2006

अन्जना
{अन्जना}
द्वितीय सिविल जज {अवर छाउ}
बुलन्दशहर ।